



भिन्नों का जोड़ (समान भाजक)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{5}{9} + \frac{6}{9} =$$

$$\frac{1}{5} + \frac{7}{5} =$$

$$\frac{4}{6} + \frac{4}{6} =$$

$$\frac{7}{8} + \frac{5}{8} =$$

$$\frac{4}{6} + \frac{2}{6} =$$


$$\frac{1}{7} + \frac{2}{7} =$$

$$\frac{4}{6} + \frac{4}{6} =$$

$$\frac{3}{6} + \frac{2}{6} =$$

$$\frac{2}{4} + \frac{2}{4} =$$

$$\frac{4}{8} + \frac{6}{8} =$$



भिन्नों का जोड़ (समान भाजक)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{5}{9} + \frac{6}{9} = \frac{11}{9} = 1\frac{2}{9}$$

$$\frac{1}{5} + \frac{7}{5} = \frac{8}{5} = 1\frac{3}{5}$$

$$\frac{4}{6} + \frac{4}{6} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$$

$$\frac{7}{8} + \frac{5}{8} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$$

$$\frac{4}{6} + \frac{2}{6} = 1$$

$$\frac{1}{7} + \frac{2}{7} = \frac{3}{7}$$

$$\frac{4}{6} + \frac{4}{6} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$$

$$\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

$$\frac{2}{4} + \frac{2}{4} = 1$$

$$\frac{4}{8} + \frac{6}{8} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$$